

Exam dt: 30.09.21 (M)

पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या : 32
Number of Pages in Booklet : 32

पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या : 150
No. of Questions in Booklet : 150

Paper Code : 23

Sub: Accountancy and
Business Statistics-I

समय : 3.00 घण्टे
Time : 3.00 Hours

प्रश्न-पत्र पुस्तिका संख्या /
Question Paper Booklet No.

8185049

APCE-12

Paper - I

अधिकतम अंक : 75
Maximum Marks : 75

प्रश्न-पत्र पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक के पेपर सील/पोलिथीन बैग को खोलने पर परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उसके प्रश्न-पत्र पुस्तिका पर वही प्रश्न-पत्र पुस्तिका संख्या अंकित है जो उत्तर पत्रक पर अंकित है। इसमें कोई भिन्नता हो तो परीक्षार्थी बीकानेर से दूसरा प्रश्न-पत्र प्राप्त कर लें। ऐसा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

On opening the paper seal/polythene bag of the Question Paper Booklet the candidate should ensure that Question Paper Booklet No. of the Question Paper Booklet and Answer Sheet must be same. If there is any difference, candidate must obtain another Question Paper Booklet from Invigilator. Candidate himself shall be responsible for ensuring this.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए।
4. एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा।
5. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं, जिन्हें क्रमशः 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को उत्तर पत्रक पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा करना है।
6. OMR उत्तर पत्रक इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर-पत्रक निकाल कर ध्यान से केवल नीले बॉल प्वाइंट पेन से विवरण भरें।
7. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा। गलत उत्तर से तात्पर्य अशुद्ध उत्तर अथवा किसी भी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर से है। किसी भी प्रश्न से संबंधित गोले या बबल को खाली छोड़ना गलत उत्तर नहीं माना जायेगा।
8. मोबाइल फोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का परीक्षा हॉल में प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. कृपया अपना रोल नम्बर ओ.एम.आर. पत्रक पर सावधानीपूर्वक सही भरें। गलत अथवा अपूर्ण रोल नम्बर भरने पर 5 अंक कुल प्राप्तांकों में से काटे जा सकते हैं।
10. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा।

चेतावनी: अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है या उसके पास से कोई अनधिकृत सामग्री पाई जाती है, तो उस अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विविध नियमों-प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही विभाग ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली विभाग की समस्त परीक्षाओं से विवर्जित कर सकता है।

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

1. Answer all questions.
2. All questions carry equal marks.
3. Only one answer is to be given for each question.
4. If more than one answers are marked, it would be treated as wrong answer.
5. Each question has four alternative responses marked serially as 1, 2, 3, 4. You have to darken only one circle or bubble indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
6. The OMR Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars carefully with blue ball point pen only.
7. 1/3 part of the mark(s) of each question will be deducted for each wrong answer. A wrong answer means an incorrect answer or more than one answers for any question. Leaving all the relevant circles or bubbles of any question blank will not be considered as wrong answer.
8. Mobile Phone or any other electronic gadget in the examination hall is strictly prohibited. A candidate found with any of such objectionable material with him/her will be strictly dealt as per rules.
9. Please correctly fill your Roll Number in O.M.R. Sheet. 5 Marks can be deducted for filling wrong or incomplete Roll Number.
10. If there is any sort of ambiguity/mistake either of printing or factual nature then out of Hindi and English Version of the question, the English Version will be treated as standard.

Warning: If a candidate is found copying or if any unauthorized material is found in his/her possession, F.I.R. would be lodged against him/her in the Police Station and he/she would liable to be prosecuted. Department may also debar him/her permanently from all future examinations.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।
Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.



1. किसी साझेदारी फर्म के विघटन के दौरान शनैः शनैः नकद वितरण व्यवस्था में स्थिति विवरण दर्शाता है :

श्री X का पूंजी खाता : ₹ 2,000

श्री Y का पूंजी खाता : ₹ 3,000

लेनदार : ₹ 5,000

श्री X का ऋण : ₹ 5,000

यदि उपलब्ध नकद शेष ₹ 8,000 हो, तो किसे भुगतान किया जाएगा ?

(1) लेनदार ₹ 5,000, श्री X का ऋण ₹ 3,000

(2) लेनदार ₹ 4,000, श्री X का ऋण ₹ 4,000

(3) श्री X का ऋण ₹ 5,000, लेनदार ₹ 3,000

(4) सभी पक्षों को बराबर ₹ 2,000 का भुगतान होगा ।

2. मूल्यहास लेखांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है ?

(1) मूल्यहास एक परिशोधन व्यय है ।

(2) एक वित्तीय वर्ष में हानि की स्थिति में मूल्यहास प्रदान नहीं किया जा सकता ।

(3) मूल्यहास स्थायी सम्पत्तियों की लागत का सम्पत्ति के जीवन काल में आवंटन की प्रक्रिया है ।

(4) मूल्यहास की घटती शेष विधि में मूल्यहास तथा मरम्मत एवं रखरखाव के लिए एक समान प्रभार का पालन किया जाता है ।

3. मूल्य स्तर परिवर्तन लेखांकन तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है

(1) वित्तीय विवरण का वर्तमान मूल्य स्तर से मिलान ।

(2) पूर्व निर्धारित कारक मूल्य के आधार पर मूल्यों को बढ़ाना ।

(3) बेहतर लाभ एवं वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हुए एक अनुकूल वित्तीय विवरण प्रदान करना ।

(4) उपरोक्त सभी

4. किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत माल का स्वामित्व स्थानांतरित किया जाता है -

(1) प्रथम किस्त के भुगतान पर

(2) अंतिम किस्त के भुगतान पर

(3) माल की सुपुर्दगी प्राप्त होने पर

(4) क्रय अनुबंध के तुरन्त पश्चात्

1. In piecemeal distribution of cash during the dissolution of a partnership firm, the balance sheet shows :

Capital a/c of Mr. X : ₹ 2,000

Capital a/c of Mr. Y : ₹ 3,000

Creditors : ₹ 5,000

Mr. X's Loan : ₹ 5,000

If the available cash balance is ₹ 8,000, who should be paid ?

(1) Creditors ₹ 5,000, Mr. X's Loan ₹ 3,000

(2) Creditors ₹ 4,000, Mr. X's loan ₹ 4,000

(3) Mr. X's loan ₹ 5,000, Creditors ₹ 3,000

(4) All parties are equally distributed ₹ 2,000

2. Which of the following is NOT true regarding Depreciation Accounting ?

(1) Depreciation is an amortised expenditure.

(2) Depreciation cannot be provided in case of loss in a financial year.

(3) Depreciation is process of allocation of cost of fixed assets over the lifetime of that assets.

(4) Reducing Balance method of depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation and repairs and maintenance together.

3. The main objective of preparing price level changes accounting is to

(1) Match the financial report to the current price levels.

(2) Inflate the values based on a predetermined factor price.

(3) Provide a favourable financial statement revealing better profits and financial position.

(4) All of the above

4. Ownership of the goods under installment payment system is transferred at the time of

(1) Payment of first installment

(2) Payment of last installment

(3) Receiving delivery of goods

(4) Immediately after the purchase agreement

5. अपूर्ण लेखों में लाभ की गणना के लिए सही सूत्र है -
- (1) शुद्ध लाभ = प्रारंभिक पूँजी + वर्ष के दौरान लगाई गई अतिरिक्त पूँजी + आहरण
 - (2) शुद्ध लाभ = अंतिम पूँजी + आहरण + प्रारंभिक पूँजी
 - (3) शुद्ध लाभ = अंतिम पूँजी - आहरण + वर्ष के दौरान लगाई गई अतिरिक्त पूँजी - प्रारंभिक पूँजी
 - (4) शुद्ध लाभ = अंतिम पूँजी + आहरण - वर्ष के दौरान लगाई गई अतिरिक्त पूँजी - प्रारंभिक पूँजी
6. निम्न में से एक संस्था के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं दिखाई जाने वाली मद है
- (1) गत वर्ष के बकाया वेतन का भुगतान
 - (2) चालू वर्ष का बकाया वेतन
 - (3) आगामी वर्ष के लिए प्राप्त पेशगी चन्दा
 - (4) आगामी वर्ष के लिए पूर्वदत्त किराया
7. जहाजी यात्रा खाते का लाभ या हानि स्थानांतरित किया जाता है -
- (1) जहाजी कम्पनी के लाभ-हानि खाते में
 - (2) तुलन-पत्र में
 - (3) तलपट में
 - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
8. कम्पनी अधिनियम 2013 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कम्पनी/कम्पनियाँ पंजीकृत है/हैं ?
- (1) बैंकिंग कम्पनी
 - (2) सरकारी कम्पनी
 - (3) निजी कम्पनी
 - (4) उपरोक्त सभी
9. एक निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या की सीमा क्या है ?
- (1) 50
 - (2) 200
 - (3) 20
 - (4) 7
5. The correct formula for calculating profit under incomplete records
- (1) Net Profit = Opening Capital + Additional Capital during the year + Drawing
 - (2) Net Profit = Closing Capital + Drawing + Opening Capital
 - (3) Net Profit = Closing Capital - Drawing + Additional Capital during the year - Opening capital
 - (4) Net Profit = Closing capital + Drawing - Additional capital during the year - Opening capital
6. Which of the following item is not shown in the Receipt and Payment account of an organisation ?
- (1) Payment of previous year outstanding salary
 - (2) Current year outstanding salary
 - (3) Receipt of advance subscription for next year
 - (4) Prepaid rent for next year
7. Profit or loss on voyage account is transferred to
- (1) Profit and loss account of shipping company
 - (2) Balance Sheet
 - (3) Trial Balance
 - (4) None of the above
8. Which of the following company/companies are registered by the Companies Act 2013 ?
- (1) Banking Company
 - (2) Government Company
 - (3) Private Company
 - (4) All of the above
9. What is the limit to the number of members in a private company ?
- (1) 50
 - (2) 200
 - (3) 20
 - (4) 7

10. कम्पनी के निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को तीन प्रत्यक्ष चरणों में बाँट सकते हैं, क्रम है -

- (1) संवर्द्धन, पंजीकरण द्वारा समामेलन, व्यवसाय का प्रारंभ
- (2) संवर्द्धन, व्यवसाय का प्रारंभ, पंजीकरण द्वारा समामेलन
- (3) पंजीकरण द्वारा समामेलन, व्यवसाय का प्रारंभ, संवर्द्धन
- (4) व्यवसाय का प्रारंभ, पंजीकरण द्वारा समामेलन, संवर्द्धन

11. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(71) के अनुसार, एक निजी लिमिटेड कंपनी, जो एक सार्वजनिक कम्पनी की सहायक कम्पनी है, को माना जाएगा -

- (1) सार्वजनिक कम्पनी
- (2) निजी कम्पनी
- (3) सरकारी कम्पनी
- (4) अर्द्ध निजी कम्पनी

12. मिलान कीजिए :

- | | |
|--------------------------|---|
| A. अधिकृत पूँजी | i. लाभांश में पूर्वाधिकार को सुरक्षित रखता है। |
| B. पूर्वाधिकार अंश पूँजी | ii. कम्पनी के समापन पर माँगी जाती है। |
| C. संचित पूँजी | iii. अंश पूँजी में एक निश्चित छोटी राशि की इकाई |
| D. अंश | iv. अंश पूँजी की अधिकतम राशि |

- | | A | B | C | D |
|-----|-----|-----|----|-----|
| (1) | iv | iii | ii | i |
| (2) | iv | i | ii | iii |
| (3) | iii | i | iv | ii |
| (4) | iv | ii | i | iii |

13. ₹ 10 के एक अंश पर ₹ 7 माँगे जा चुके थे तथा ₹ 3 का भुगतान किया जा चुका था, हरण किये गये। अंश पूँजी खाते को डेबिट किया जाएगा

- (1) ₹ 3
- (2) ₹ 4
- (3) ₹ 7
- (4) ₹ 10

10. The whole process of the company formation can be divided into three direct stages, the sequence is -

- (1) Promotion, incorporation by registration, commencement of business
- (2) Promotion, commencement of business, incorporation by registration
- (3) Incorporation by registration, commencement of business, promotion
- (4) Commencement of business, incorporation by registration, promotion

11. As per the Sec. 2(71) of Companies Act, 2013, a private limited company, which is a subsidiary of a public company, shall be deemed as -

- (1) Public company
- (2) Private company
- (3) Government company
- (4) Semi private company

12. Match the following :

- | | |
|-----------------------------|--|
| A. Authorised capital | i. Reserves their preference in dividend |
| B. Preference share capital | ii. Called up only on liquidation of company |
| C. Reserve capital | iii. Unit of a fixed small amount in share capital |
| D. Share | iv. Maximum amount of share capital |

- | | A | B | C | D |
|-----|-----|-----|----|-----|
| (1) | iv | iii | ii | i |
| (2) | iv | i | ii | iii |
| (3) | iii | i | iv | ii |
| (4) | iv | ii | i | iii |

13. If a share of ₹ 10 on which ₹ 7 has been called and ₹ 3 is paid, has forfeited, the share Capital Account should be debited with

- (1) ₹ 3
- (2) ₹ 4
- (3) ₹ 7
- (4) ₹ 10

14. ₹ 10 वाले 50000 समता अंश जनता में ₹ 2 प्रति अंश प्रीमियम, जो कि आबंटन पर देय है, पर निर्गमित किये।
60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। प्रतिभूति प्रीमियम खाता की राशि होगी –
- (1) ₹ 1,00,000
 - (2) ₹ 1,20,000
 - (3) ₹ 20,000
 - (4) ₹ 10,000
15. यदि अंशों के पुनर्निर्गमन पर हानि, हरण राशि से कम है, तो ये आधिक्य राशि स्थानांतरित की जाएगी
- (1) अंश पूंजी खाता
 - (2) पूंजी संचय खाता
 - (3) सामान्य संचय खाता
 - (4) लाभ एवं हानि खाता
16. अधिकार अंश निर्गमित किये जाते हैं –
- (1) संवर्धकों को उनकी सेवा हेतु
 - (2) परिवर्तनीय ऋणपत्रों के धारकों को
 - (3) वर्तमान अंशधारियों को
 - (4) उपरोक्त सभी
17. अंशों की वापसी खरीद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ?
- (1) वापसी खरीद अन्तर्नियमों द्वारा अधिकृत होनी चाहिए।
 - (2) वापसी खरीद हेतु विशेष प्रस्ताव पास किया गया हो।
 - (3) वापसी खरीद की अधिकतम सीमा किसी वर्ष में कुल प्रदत्त अंशपूंजी तथा मुक्त संचय का 25% होनी चाहिए।
 - (4) अंश अंशतः प्रदत्त हो सकते हैं।
18. निम्न में से कौन सा संचय पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन हेतु उपलब्ध नहीं है ?
- (1) लाभ हानि खाता
 - (2) पूंजी शोधन संचय
 - (3) स्थायी सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न पूंजी संचय
 - (4) प्रतिभूति प्रीमियम
14. 50000 equity share of ₹ 10 each were issued to public at a premium of ₹ 2 per share payable on allotment. Applications were received for 60000 shares. Amount of securities premium account will be –
- (1) ₹ 1,00,000
 - (2) ₹ 1,20,000
 - (3) ₹ 20,000
 - (4) ₹ 10,000
15. If the loss on reissue of share is less than the amount forfeited, the surplus amount is transferred to
- (1) Share Capital a/c
 - (2) Capital Reserve a/c
 - (3) General Reserve a/c
 - (4) Profit & Loss a/c
16. Rights share are issued to –
- (1) Promoters for their service
 - (2) Holders of convertible debenture
 - (3) Existing shareholders
 - (4) All of the above
17. Which of the following statement is NOT true regarding buy back of shares ?
- (1) Buy back must be authorised by Articles of Association.
 - (2) A special resolution must be passed for buy back.
 - (3) Maximum buy back limit in any year is 25% of total paid up equity capital and free reserve.
 - (4) Shares can be partly paid up.
18. Which of the following reserves is NOT available for issue of fully paid bonus share ?
- (1) Profit and loss account
 - (2) Capital redemption reserve
 - (3) Capital reserve arising due to revaluation of fixed assets
 - (4) Security Premium

19. यदि कम मूल्य वाले अंशों को, अंश पूँजी की कुल राशि में बदलाव बिना, अधिक मूल्य वाले अंशों में परिवर्तित किया जाता है, तो यह कहलाता है
- (1) अंश पूँजी का समेकन
 - (2) अंश पूँजी को बाँटना
 - (3) अंश पूँजी का उप-विभाजन
 - (4) अनिर्गमित अंश पूँजी में कमी
20. निम्न में से कौन सा पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु स्रोत नहीं है ?
- (1) लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष
 - (2) सामान्य संचय
 - (3) अंशों के नये निर्गमन से प्राप्त राशि
 - (4) ऋणपत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि
21. 'अ' लिमिटेड ने 'ब' लिमिटेड से ₹ 6,60,000 में एक मशीन खरीदी। 'अ' लिमिटेड ने प्रतिफल का भुगतान 12% ऋणपत्र, प्रत्येक ₹ 100 के, 10% प्रीमियम पर निर्गमन द्वारा किया। 'ब' लिमिटेड द्वारा प्राप्त किये गये ऋणपत्रों की संख्या होगी -
- (1) 5,400
 - (2) 54,000
 - (3) 60,000
 - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
22. सम्पाश्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित ऋणपत्रों पर ब्याज का भुगतान किया जाता है -
- (1) ऋणपत्रों के अंकित मूल्य पर
 - (2) ऋणपत्रों के निर्गमित मूल्य पर
 - (3) कोई ब्याज नहीं दिया जाता।
 - (4) ऋणपत्रों के प्रदत्त मूल्य पर
23. यदि खुले बाजार में क्रय किये गये ऋणपत्रों को तुरन्त निरस्त नहीं किया जाता, तो ये कहलाते हैं -
- (1) विनियोग
 - (2) चालू सम्पत्ति
 - (3) चालू दायित्व
 - (4) पूँजी
24. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एक कम्पनी के लाभ और हानि विवरण को _____ में दिये गये प्रारूप में तैयार किया जाना आवश्यक है।
- (1) अनुसूची III भाग-I
 - (2) अनुसूची III भाग-II
 - (3) अनुसूची III भाग-III
 - (4) सारणी 'अ'

19. If the share of smaller denomination are converted into the shares of higher denomination without changing the total amount of share capital, it is a case of
- (1) Consolidation of share capital
 - (2) Split of share capital
 - (3) Sub-division of share capital
 - (4) Decrease in unissued share capital
20. Which of the following is NOT the source for redemption of preference share ?
- (1) Credit balance of P/L a/c
 - (2) General Reserve
 - (3) The proceeds of a fresh issue of shares
 - (4) The proceeds of issue of debentures
21. A Ltd. acquired a machine of ₹ 6,60,000 from B Ltd., A Ltd. discharged the consideration by issuing 12% debentures of ₹ 100 each at a premium of 10%. The number of debentures received by B limited will be -
- (1) 5,400
 - (2) 54,000
 - (3) 60,000
 - (4) None of the above
22. Interest on debentures issued as a collateral security is paid on -
- (1) Face value of debenture
 - (2) Issued price of debenture
 - (3) No interest is paid.
 - (4) Paid up value of debenture
23. If debentures purchased in open market are not immediately cancelled, they are treated as -
- (1) Investment
 - (2) Current Asset
 - (3) Current Liabilities
 - (4) Capital
24. According to the Companies Act 2013, Profit and Loss statement of a company is required to be prepared in the format given in
- (1) Schedule III Part-I
 - (2) Schedule III Part-II
 - (3) Schedule III Part-III
 - (4) Table A

29. निम्नलिखित में से कौन भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक है ?

- (1) RBI
- (2) ICAI
- (3) IRDA
- (4) SEBI

30. एक फर्म के वास्तविक औसत लाभ ₹ 35,000 हैं। प्रत्याय की सामान्य दर 10% वार्षिक है। औसत विनियोजित पूँजी ₹ 2,50,000 है। लाभों की पूँजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य क्या होगा ?

- (1) ₹ 3,50,000
- (2) ₹ 25,000
- (3) ₹ 2,15,000
- (4) ₹ 1,00,000

31. दिया गया है -

समता अंश का प्रदत्त मूल्य	₹ 50
सामान्य प्रत्याय दर	8%
प्रत्याशित भावी लाभांश दर	4%
प्रतिफल विधि के अंतर्गत समता अंश का मूल्य क्या होगा ?	

- (1) ₹ 50
- (2) ₹ 100
- (3) ₹ 25
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

32. कम्पनी के आन्तरिक पुनर्निर्माण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ?

- (1) आन्तरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत, विद्यमान कम्पनी बनी रहती है, केवल पूँजी संरचना बदलती है।
- (2) आन्तरिक पुनर्निर्माण के पश्चात्, कम्पनी घाटे की स्थिति से बाहर निकल, लाभ कमाने की स्थिति में प्रवेश कर सकती है।
- (3) कम्पनी के आन्तरिक पुनर्निर्माण के लिए लेखा मानक-14 लागू होता है।
- (4) आन्तरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत पूँजी में कमी हेतु विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा।

29. Which of the following is the regulator of insurance sector in India ?

- (1) RBI
- (2) ICAI
- (3) IRDA
- (4) SEBI

30. Actual profits of a firm is ₹ 35,000. The rate of normal returns is 10% p.a. The average capital employed is ₹ 2,50,000. What is the amount of goodwill as per capitalised method of profit ?

- (1) ₹ 3,50,000
- (2) ₹ 25,000
- (3) ₹ 2,15,000
- (4) ₹ 1,00,000

31. Given :

Paid up value of an equity share	₹ 50
Normal rate of return	8%
Expected future dividend rate	4%

What is the value of an equity share under the yield method ?

- (1) ₹ 50
- (2) ₹ 100
- (3) ₹ 25
- (4) None of the above

32. Which of the following statement is FALSE regarding Internal Reconstruction of Company ?

- (1) Under internal reconstruction, the existing company remains as it is, only capital structure is changed.
- (2) After internal reconstruction, company may come out of the loss position and enter the position of earning profits.
- (3) Accounting standard-14 is applicable for internal reconstruction of company.
- (4) A company must pass a special resolution for reduction of capital under internal reconstruction.

33. एकीकरण के समय, क्रय प्रतिफल में शामिल नहीं है

- (1) वह राशि जो हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा सीधे ही हस्तान्तरक कम्पनी के लेनदारों को भुगतान की जाती है।
- (2) हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा हस्तान्तरक कम्पनी के अंशधारकों को सम्पत्तियों के रूप में किया गया भुगतान।
- (3) हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा हस्तान्तरी और हस्तान्तरक कम्पनी के अंशों के आंतरिक मूल्यानुपात के आधार पर किया गया भुगतान।
- (4) हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा हस्तान्तरक कम्पनी के पूर्वाधिकार अंशधारियों को निर्गमित पूर्वाधिकार अंश।

34. सहायक कम्पनी की शुद्ध सम्पत्तियों में बाहरी व्यक्तियों की हिस्सेदारी को जाना जाता है -

- (1) बाहरी व्यक्तियों के दायित्व
- (2) अल्पमत हित
- (3) बाहरी व्यक्तियों की सम्पत्ति
- (4) बहुमत हित

35. सूत्रधारी कम्पनी, H लिमिटेड द्वारा सहायक कम्पनी S लिमिटेड को ₹ 40,000 का माल 25% लागत पर लाभ कमाते हुए बेचा। यदि ₹ 10,000 का माल S लिमिटेड के स्टॉक में शेष हो तो समेकित चिट्ठा बनाने के उद्देश्य से न वसूले हुए लाभ की राशि क्या होगी ?

- (1) ₹ 20,000
- (2) ₹ 2,500
- (3) ₹ 2,000
- (4) ₹ 1,500

36. जब एक कम्पनी का समापन होता है, सभी व्यक्ति जिन्होंने कम्पनी के समापन के एक वर्ष के भीतर सदस्यता त्यागी है, शामिल किये जाते हैं -

- (1) अंशदाताओं की सूची 'अ' में
- (2) अंशदाताओं की सूची 'ब' में
- (3) अंशदाताओं की सूची 'स' में
- (4) अंशदाताओं की सूची 'द' में

33. At the time of amalgamation, purchase consideration does not include -

- (1) The sum which the transferee company directly paid to the creditors of the transferor company.
- (2) Payment made in form of assets by the transferee company to the shareholders of the transferor company.
- (3) Payment made by transferee company on the basis of ratio of intrinsic value of share of transferee and transferor company.
- (4) Preference share issued by the transferee company to the preference shareholders of the transferor company.

34. The share of outsiders in the Net Assets in subsidiary company is known as under -

- (1) Outsider's liability
- (2) Minority Interest
- (3) Outsider's Assets
- (4) Majority Interest

35. H Ltd. holding company sold goods worth ₹ 40,000 to S Ltd. subsidiary company at a profit of 25% on cost price. If goods worth ₹ 10,000 is remaining in the stock of S Ltd., what is the amount of unrealised profit for the purpose of preparing consolidated B/S ?

- (1) ₹ 20,000
- (2) ₹ 2,500
- (3) ₹ 2,000
- (4) ₹ 1,500

36. When a company is wound-up, all persons who ceased to be the shareholders within a year before the winding up are placed in the -

- (1) 'A' list of contributories
- (2) 'B' list of contributories
- (3) 'C' list of contributories
- (4) 'D' list of contributories

37. समापन के समय एक कम्पनी के निम्नलिखित दायित्व हैं :

- A. लेनदार ₹ 5,000
 B. कानूनी व्यय ₹ 1,500
 C. समापन व्यय ₹ 290
 D. पूर्वाधिकार अंश पूँजी ₹ 7,200
- निस्तारक का अंतिम लेखा विवरण तैयार करते समय भुगतान का क्रम क्या होगा ?
- (1) B, A, D, C
 (2) C, B, A, D
 (3) C, B, D, A
 (4) B, C, A, D

38. द्वि खाता पद्धति के अंतर्गत निम्नलिखित मदों को उनके संबंधित खातों से मिलाइये :

- A. समता अंश पूँजी i. रेवेन्यू खाता
 B. ऋणपत्रों पर ब्याज ii. सामान्य चिट्ठा
 C. प्रबन्धकीय व्यय iii. पूँजी खाते पर प्राप्तियों व व्ययों का विवरण
 D. फूटकर लेनदार iv. शुद्ध रेवेन्यू खाता
- | | A | B | C | D |
|-----|-----|----|-----|-----|
| (1) | iii | iv | i | ii |
| (2) | ii | iv | i | iii |
| (3) | ii | i | iv | iii |
| (4) | iv | i | iii | ii |

39. राजकीय लेखांकन की व्यवस्थाओं के अनुसार, निम्न में से कौन सा कोष भारत सरकार द्वारा नहीं बनाया जाता ?

- (1) समेकित कोष
 (2) शोध एवं विकास कोष
 (3) आकस्मिक कोष
 (4) सार्वजनिक खाता

40. कृषि कार्य में लगे एक परिवार ने पारिवारिक उपभोग के लिए ₹ 5,000 का अनाज काम में लिया। 'कृषि फार्मों के लिए लेखांकन' के अंतर्गत इसकी जर्नल प्रविष्टि होगी

- (1) Crops a/c Dr. 5,000
 To Cash a/c 5,000
 (2) Wages a/c Dr. 5,000
 To Crops a/c 5,000
 (3) Drawings a/c Dr. 5,000
 To Crops a/c 5,000
 (4) कोई प्रविष्टि नहीं

37. At the time of liquidation, a company has following liabilities :

- A. Creditors ₹ 5,000
 B. Legal expenses ₹ 1,500
 C. Liquidation expenses ₹ 290
 D. Preference share capital ₹ 7,200
- What will be the order of payment while preparing the liquidator final statement of account ?

- (1) B, A, D, C
 (2) C, B, A, D
 (3) C, B, D, A
 (4) B, C, A, D

38. Under the Double Account System, match the following items to their respective accounts :

- A. Equity Share Capital i. Revenue Account
 B. Interest on Debenture ii. General Balance Sheet
 C. Management Expenses iii. Receipt and Expenditure on Capital Account
 D. Sundry Creditors iv. Net Revenue Account

- | | A | B | C | D |
|-----|-----|----|-----|-----|
| (1) | iii | iv | i | ii |
| (2) | ii | iv | i | iii |
| (3) | ii | i | iv | iii |
| (4) | iv | i | iii | ii |

39. Under the arrangements of Government Accounting, which of the following fund is NOT maintained by the Government of India ?

- (1) Consolidated funds
 (2) Research and Development fund
 (3) Contingency fund
 (4) Public Account

40. A family engaged in agricultural work consumed food grain of ₹ 5,000 for his family. Its journal entry would be under 'Accounting for agricultural farms'.

- (1) Crops a/c Dr. 5,000
 To Cash a/c 5,000
 (2) Wages a/c Dr. 5,000
 To Crops a/c 5,000
 (3) Drawings a/c Dr. 5,000
 To Crops a/c 5,000
 (4) No entry

41. न्याय-विज्ञान लेखांकन संयोजन है -
 (1) लेखांकन, अंकेक्षण और अन्वेषण
 (2) लेखांकन और अंकेक्षण
 (3) केवल लेखांकन
 (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
42. सामाजिक लेखांकन को परिभाषित किया जा सकता है -
 (1) यह एक सत्ता की समाज को प्रभावित करने वाली क्रियाओं को मापने और रिपोर्ट करने की एक स्वतंत्र विधा है।
 (2) यह सामाजिक शास्त्रों के क्षेत्र में लेखांकन का उपयोग है।
 (3) यह फर्म और सामाजिक वातावरण के मध्य हुए आदान-प्रदान के प्रभाव को आदेशित करने, मापने और प्रकट करने की प्रक्रिया है।
 (4) उपरोक्त सभी
43. MFIs समाज के आर्थिक रूप से वंचित सदस्यों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है।
 यहाँ, MFIs का आशय है -
 (1) Mutual Fund Institutes
 (2) Micro-Finance Institutions
 (3) Money and Financial Institutions
 (4) Monetary Financial Service of India
44. उत्पादन का आकार बढ़ने के साथ, प्रति इकाई स्थिर लागत
 (1) घटती है।
 (2) बढ़ती है।
 (3) समान रहती है।
 (4) कह नहीं सकते।
45. स्तम्भ-A से स्तम्भ-B का मिलान करें :
- | स्तम्भ-A | | स्तम्भ-B | |
|-------------------------|------|-----------|--|
| A. आंतरिक साजसज्जा | i. | बहुखंडीय | |
| B. ऑटोमोबाइल | ii. | समूह | |
| C. शक्कर | iii. | प्रक्रिया | |
| D. खिलौने | iv. | उपकार्य | |
| (1) A ii B iv C iii D i | | | |
| (2) A ii B iii C i D iv | | | |
| (3) A iv B i C iii D ii | | | |
| (4) A iv B ii C iii D i | | | |

41. Forensic Accounting is a combination of -
 (1) Accounting, Auditing & Investigation
 (2) Accounting and Auditing
 (3) Only Accounting
 (4) None of the above
42. Social Accounting can be defined as
 (1) an independent discipline to measure and report the activities of an entity which affects the society.
 (2) the application of accounting in the field of social sciences.
 (3) process of ordering, measuring and disclosing the impact of exchanges between a firm and its social environment.
 (4) All of the above
43. MFIs provide vital financial services to the economically deprived members of the society.
 Here, MFIs stand for
 (1) Mutual Fund Institutes
 (2) Micro-Finance Institutions
 (3) Money and Financial Institutions
 (4) Monetary Financial Service of India
44. Fixed cost per unit _____ with increase in the size of output.
 (1) decreases
 (2) increases
 (3) remain same
 (4) Can't say
45. Match the following Column-A to Column-B :
- | Column-A | | Column-B | |
|-------------------------|------|----------|--|
| A. Interior designing | i. | Multiple | |
| B. Automobile | ii. | Batch | |
| C. Sugar | iii. | Process | |
| D. Toys | iv. | Job | |
| (1) A ii B iv C iii D i | | | |
| (2) A ii B iii C i D iv | | | |
| (3) A iv B i C iii D ii | | | |
| (4) A iv B ii C iii D i | | | |

46. नीचे दिये गये व्ययों में से कौन सा व्यय कारखाना उपरिव्ययों में शामिल नहीं होता ?

- (1) भंडार रखरखाव के व्यय
- (2) नक्शा विभाग के व्यय
- (3) जावक भाड़ा
- (4) ढुलाई व्यय

47. भूतकालीन लागत जिसे किसी भविष्य की क्रिया द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, कहलाती है -

- (1) प्रासंगिक लागत
- (2) कामबंदी लागत
- (3) नकद लागत
- (4) डूबी हुई लागत

48. ABC होटल के संबंध में अप्रैल माह के लिए निम्न सूचनाएँ उपलब्ध हैं :

प्रति रात्रि उपलब्ध कमरों की संख्या	50
अधिवास प्रतिशत प्राप्त किया	75%
कुल कमरा सेवा लागत	₹ 10,125
प्रति धारित कमरा रात्रि हेतु दी गई अवधि के लिए कमरा सेवा लागत निकटतम रूपों में होगी	

- (1) ₹ 5.45
- (2) ₹ 9.00
- (3) ₹ 49.80
- (4) ₹ 112.50

49. व्यक्तिगत उत्पादों को पहचाने जा सकने वाले बिंदु तक की लागत को कहा जाता है

- (1) मूल लागत
- (2) औसत लागत
- (3) विभाजन लागत
- (4) संयुक्त लागत

50. समरूप लागत निर्धारण रीति हेतु, निम्न में से कौन सा कथन सही है/हैं ?

- A. इसे समग्र लागत के रूप में भी जाना जाता है।
- B. लागत की इस रीति का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एक समूह में उत्पादित इकाइयाँ प्रकृति और बनावट में एक समान होती हैं।
- C. यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक ही उद्योग में कई फर्म लागत निर्धारण की समान विधि का उपयोग करती हैं।

- (1) केवल A
- (2) केवल A तथा C
- (3) केवल C
- (4) केवल A तथा B

46. Which of the expenses given below is not included in factory overheads ?

- (1) Store keeping expenses
- (2) Drawing office expenses
- (3) Carriage outward
- (4) Haulage expenses

47. A cost incurred in the past that cannot be changed by any future action is called -

- (1) Relevant cost
- (2) Shutdown cost
- (3) Out of pocket cost
- (4) Sunk cost

48. Following information are available for the ABC Hotel for the month of April :

No. of Rooms available per night	50
Percentage occupancy achieved	75%
Room servicing cost incurred	₹ 10,125
The room servicing cost per occupied room night for the given period would be to the nearest rupees	

- (1) ₹ 5.45
- (2) ₹ 9.00
- (3) ₹ 49.80
- (4) ₹ 112.50

49. The cost incurred upto the point where individual products can be identified is called

- (1) Prime cost
- (2) Average cost
- (3) Separation cost
- (4) Joint cost

50. State which the following is/are correct for uniform costing method -

- A. It is also known as composite costing.
- B. This method of costing is used where units produced in a batch are uniform in nature and design.
- C. It is a system in which a number of firms in the same industry use the same method of costing.

- (1) Only A
- (2) Only A and C
- (3) Only C
- (4) Only A and B

51. ठेका लागत निर्धारण विधि में, प्रत्यक्ष श्रम लागत को डेबिट किया जाता है -

- (1) ठेका खाते में
- (2) चालू कार्य खाते में
- (3) ठेकादाता खाते में
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

52. प्रक्रिया X में 10,000 इकाइयाँ ₹ 2,00,000 की सामग्री लागत पर डाली गयीं तथा इस प्रक्रिया में मजदूरी व उपरिव्ययों पर क्रमशः ₹ 3,00,000 व ₹ 1,70,000 व्यय हुए। सामान्य क्षय 5% निर्धारित किया गया। क्षय को ₹ 10 प्रति इकाई पर बेचा जाता है। यदि वास्तविक उत्पादन 9400 इकाइयाँ है तो असामान्य क्षय इकाइयों का मूल्य होगा -

- (1) ₹ 77 प्रति इकाई
- (2) ₹ 78 प्रति इकाई
- (3) ₹ 72 प्रति इकाई
- (4) ₹ 70 प्रति इकाई

53. एक प्रक्रिया के उत्पाद को किस मूल्य पर एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में हस्तांतरित किया जाता है, जब अन्तः प्रक्रिया लाभ उत्पन्न होता है ?

- (1) बाजार मूल्य
- (2) लागत मूल्य
- (3) वास्तविक मूल्य
- (4) वसूली मूल्य

54. द्वितीयक पैकिंग व्यय भाग है -

- (1) मूल लागत
- (2) उत्पादन उपरिव्यय
- (3) प्रशासनिक लागत
- (4) वितरण उपरिव्यय

55. प्रशासनिक व्ययों में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं ?

- (1) निदेशक मंडल तथा सचिवालय कर्मचारियों का वेतन
- (2) जनसंपर्क अधिकारी के भत्ते
- (3) वैधानिक अंकेक्षक का शुल्क
- (4) उपरोक्त सभी

51. In contract costing method, direct labour cost is debited to

- (1) Contract a/c
- (2) Work in Progress a/c
- (3) Contractee a/c
- (4) None of the above

52. In a process X 10,000 units were put into process at cost of ₹ 2,00,000. The amount of wage and overheads was ₹ 3,00,000 and ₹ 1,70,000 respectively. Normal wastage was 5%. Wastage is sold @ ₹ 10 per unit. The actual production is 9400 units. The value of abnormal wastage is -

- (1) ₹ 77 per unit
- (2) ₹ 78 per unit
- (3) ₹ 72 per unit
- (4) ₹ 70 per unit

53. Inter process profit arises, when output of one process is transferred from one process to another at which price ?

- (1) Market price
- (2) Cost price
- (3) Actual price
- (4) Realised price

54. Secondary packing expenses are the part of -

- (1) Prime cost
- (2) Production overhead
- (3) Administrative cost
- (4) Distribution overheads

55. Which of the following activities may be involved in administrative expenses ?

- (1) Salary of Board of Directors and Secretarial Staff.
- (2) Allowance of public relation officer
- (3) Fees of statutory auditors
- (4) All of the above

56. गैर एकीकृत प्रणाली हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ?
- (1) लागत एवं वित्तीय खातों के लिए अलग-अलग खाताबही रखी जाती है।
 - (2) यह द्वि पक्षीय प्रणाली पर आधारित है।
 - (3) लागत खातों के अंतर्गत व्यक्तिगत खाते रखे जाते हैं।
 - (4) इस प्रणाली के अंतर्गत, एक मुख्य खाताबही, लागत खाताबही तथा विभिन्न सहायक खाताबही रखी जाती है।
57. किस लेखा प्रणाली के अंतर्गत, लागत तथा वित्तीय खातों की पुस्तकों का एक ही सेट रखा जाता है ?
- (1) एकीकृत लेखा प्रणाली
 - (2) गैर-एकीकृत लेखा प्रणाली
 - (3) लागत नियंत्रण खाते
 - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
58. Stores Ledger Control a/c Dr.
To Cash a/c
- एकीकृत लेखा प्रणाली के अंतर्गत, उपरोक्त जर्नल प्रविष्टि क्या प्रदर्शित करती है, बताइये -
- (1) स्टॉक हेतु माल उधार में क्रय किया गया
 - (2) स्टॉक हेतु माल नकद में क्रय किया गया
 - (3) विशिष्ट कार्य हेतु माल क्रय किया गया
 - (4) लेनदारों को भुगतान
59. निम्नलिखित में से कौन सा अंशदान का गलत समीकरण है ?
- (1) विक्रय - परिवर्तनशील लागत
 - (2) स्थाई लागत + लाभ
 - (3) विक्रय - स्थाई लागत
 - (4) विक्रय - सीमान्त लागत
60. एक कम्पनी ने एक उत्पाद की 700 इकाइयाँ उत्पादित कीं तथा निम्नलिखित लागत घटित हुई :
- | | |
|-----------------------|----------|
| प्रत्यक्ष सामग्री | ₹ 15,000 |
| प्रत्यक्ष मजदूरी | ₹ 20,000 |
| उपरिव्यय (20% स्थायी) | ₹ 50,000 |
- यदि 700 इकाइयों का विक्रय मूल्य ₹ 1,20,000 था तो अंशदान सीमा क्या होगी ?
- (1) 74%
 - (2) 75%
 - (3) 35.5%
 - (4) 37.5%

56. Which is the following statement is NOT true for Non-Integral system ?
- (1) Separate ledgers are maintained for cost and financial accounts.
 - (2) It is based on double entry system
 - (3) Cost accounts are concerned with personal accounts.
 - (4) Under this system, one main ledger i.e. cost ledger and various subsidiary ledger are maintained.
57. In which accounting system, whereby cost and financial accounts are kept in the same set of books ?
- (1) Integrated Accounting system
 - (2) Non-integrated Accounting System
 - (3) Cost Control Accounts
 - (4) None of the above
58. Stores Ledger Control a/c Dr.
To Cash a/c
- State, under integrated Accounting system, what is the above journal entry is showing -
- (1) Material purchased for stock on credit
 - (2) Material purchased for stock on cash
 - (3) Material purchased for specific job
 - (4) Payment to creditors
59. Which of the following is incorrect equation of contribution ?
- (1) Sales - Variable Cost
 - (2) Fixed Cost + Profit
 - (3) Sales - Fixed Cost
 - (4) Sales - Marginal Cost
60. A company produced 700 units of a product and incurred the following cost :
- | | |
|-----------------------|----------|
| Direct Material | ₹ 15,000 |
| Direct Wage | ₹ 20,000 |
| Overheads (20% Fixed) | ₹ 50,000 |
- If the sale value of 700 units was ₹ 1,20,000, what is the contribution margin ?
- (1) 74%
 - (2) 75%
 - (3) 35.5%
 - (4) 37.5%

61. बनाने अथवा क्रय संबंधी निर्णय में निम्न में से कौन सी सूचना प्रासंगिक लागत नहीं है ?
- (1) क्रय लागत
 - (2) सामान्य स्थिर लागत
 - (3) अभिवृद्धि लागत
 - (4) अवसर लागत
62. एक तालाबंदी निर्णय में, विचार करना होगा –
- (1) अंशदान
 - (2) पहचानने योग्य स्थिर लागत, यदि कोई
 - (3) अन्य उत्पादों पर तालाबंदी का प्रभाव, यदि कोई
 - (4) उपरोक्त सभी
63. सीमांत लागत निर्धारण को जाना जाता है
- (1) अप्रत्यक्ष लागत निर्धारण
 - (2) प्रत्यक्ष लागत निर्धारण
 - (3) परिवर्तनशील लागत निर्धारण
 - (4) विकल्प (2) और (3) दोनों
64. निम्न में से कौन सा कथन BEP विश्लेषण को सही रूप में व्यक्त करता है ?
- A. ना लाभ, ना हानि
 - B. कुल आगम = कुल लागत
 - C. अंशदान \neq स्थिर लागत
- (1) केवल A
 - (2) केवल A, B
 - (3) सभी A, B, C
 - (4) केवल C
65. एक बहुत ही अस्थिर बाजार में एक फर्म के लिए सुरक्षा सीमा 5% है। निम्न में से कौन सा सत्य है ?
- (1) सुरक्षा सीमा संभवतः बहुत अधिक है।
 - (2) सुरक्षा सीमा संभवतः बहुत कम है।
 - (3) सुरक्षा सीमा पर्याप्त है।
 - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
66. निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय बजट है ?
- (1) पूँजीगत व्यय बजट
 - (2) कार्यशील पूँजी बजट
 - (3) रोकड़ बजट
 - (4) उपरोक्त सभी
67. उत्पादन बजट निर्भर करता है
- (1) सामग्री लागत बजट पर
 - (2) रोकड़ बजट पर
 - (3) विक्रय बजट पर
 - (4) अनुसंधान एवं विकास बजट पर

61. Which of the following is NOT a relevant cost information in a make or buy decision ?
- (1) Cost to buy
 - (2) General fixed cost
 - (3) Incremental cost
 - (4) Opportunity cost
62. In a shutdown decision, one has to consider –
- (1) Contribution
 - (2) Identifiable fixed cost, if any
 - (3) Impact of shutdown on other products, if any
 - (4) All of the above
63. Marginal costing is also known as
- (1) Indirect costing
 - (2) Direct costing
 - (3) Variable costing
 - (4) Both (2) and (3)
64. Which of the following statement/s correctly shows the BEP analysis ?
- A. No profit, No loss
 - B. Total Revenue = Total cost
 - C. Contribution \neq Fixed cost
- (1) Only A
 - (2) Only A, B
 - (3) All A, B, C
 - (4) Only C
65. The margin of safety for a firm in a very volatile market is 5%. Which of the following is true ?
- (1) The margin of safety is probably too high.
 - (2) The margin of safety is probably too low.
 - (3) The margin of safety is adequate.
 - (4) None of the above
66. Which of the following is financial budget ?
- (1) Capital Expenditure Budget
 - (2) Working Capital Budget
 - (3) Cash Budget
 - (4) All of above
67. Production Budget is dependent on
- (1) Material Cost Budget
 - (2) Cash Budget
 - (3) Sales Budget
 - (4) Research and Development Budget

68. मिलान करिये :

- | | | |
|---------------|------|--------------------------------------|
| A. ZBB | i. | सभी क्रियाशील बजट का सार |
| B. मास्टर बजट | ii. | उत्पादन स्तरों के अनुसार परिवर्तनशील |
| C. बजटिंग | iii. | गत स्तर व्यय शामिल नहीं |
| D. लोचशील बजट | iv. | बजट तैयार करने की प्रक्रिया |
- | | A | B | C | D |
|-----|-----|-----|----|-----|
| (1) | iii | i | iv | ii |
| (2) | iii | iv | i | ii |
| (3) | iv | ii | i | iii |
| (4) | iv | iii | ii | i |

69. प्रमापित लागत निर्धारण तकनीक है

- (1) लागत पूर्वानुमान की
- (2) लागत नियंत्रण की
- (3) व्यवसाय की हानियों को कम करने की
- (4) उत्पाद हेतु प्रमाप लागत की गणना करने की

70. सामग्री लागत विचरण बराबर है

- (1) $MPV + MUV$
- (2) $MPV + MYV$
- (3) $MMV + MYV$
- (4) $MPV + MMV$

71. वास्तविक लागत एवं प्रमाप लागत के बीच के अंतर को कहा जाता है

- (1) व्यय
- (2) आय
- (3) विचरण
- (4) प्रमाप लागत

72. श्रम कार्यहीन समय विचरण के संबंध में कौन सा कथन सही है ?

- (1) असामान्य कार्यहीन समय * वास्तविक घंटा दर
- (2) यह विचरण सदैव प्रतिकूल होता है।
- (3) यह विचरण श्रम दर विचरण के भाग को प्रकट करता है।
- (4) यह विचरण कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण नहीं होता है।

68. Match the following :

- | | | |
|--------------------|------|---------------------------------------|
| A. ZBB | i. | Summary of all functional budget |
| B. Master Budget | ii. | Changes according to production level |
| C. Budgeting | iii. | No previous level expenditure |
| D. Flexible Budget | iv. | Process of preparing budget |
- | | A | B | C | D |
|-----|-----|-----|----|-----|
| (1) | iii | i | iv | ii |
| (2) | iii | iv | i | ii |
| (3) | iv | ii | i | iii |
| (4) | iv | iii | ii | i |

69. Standard costing is a technique of

- (1) Anticipating cost
- (2) Cost control
- (3) Reducing losses of business
- (4) Calculating standard cost for the product

70. Material cost variance is equal to

- (1) $MPV + MUV$
- (2) $MPV + MYV$
- (3) $MMV + MYV$
- (4) $MPV + MMV$

71. The difference between actual cost and standard cost is known as

- (1) Expenditure
- (2) Income
- (3) Variance
- (4) Standard cost

72. Which statement is TRUE regarding Labour Idle Time Variance ?

- (1) $\text{Abnormal Idle hours} * \text{Actual Hourly Rate}$
- (2) This variance is always unfavourable or adverse.
- (3) This variance represents the segment of Labour Rate variance.
- (4) This variance is not caused by non-availability of raw material.

73. जब प्रमापित मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य से अधिक या कम हो, यह कहलाता है

- (1) विक्रय मात्रा विचरण
- (2) विक्रय आगम विचरण
- (3) विक्रय मूल्य विचरण
- (4) विक्रय मिश्रण विचरण

74. स्थिर उपरिव्यय लागत विचरण ज्ञात करें :

	प्रमाप	वास्तविक
स्थिर उपरिव्यय	₹ 8,000	₹ 8,500
उत्पादन (इकाइयों में)	4000	3800
(1) 900(A)		
(2) 500(A)		
(3) 900(F)		
(4) 500(F)		

75. क्रिया आधारित लागत प्रणाली के अंतर्गत संसाधन चालक का उपयोग करते हुए गतिविधियों को किस प्रकार की लागत सौंपी जाती है ?

- (1) प्रत्यक्ष लागतें
- (2) अप्रत्यक्ष लागतें
- (3) कुल लागत
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

76. हस्तान्तरण मूल्य है

- (1) लाभ केन्द्रों को विनियोग केन्द्रों में बदलने का मूल्य
- (2) किसी उत्पाद को बेचने के लिए बाजार आधारित मूल्य
- (3) कम्पनी के एक खंड द्वारा दूसरे खंड को प्रभारित किया गया मूल्य
- (4) उपरोक्त सभी

77. एक उत्पाद की जीवन चक्र लागत में सम्मिलित है -

- (1) पूर्व अधिग्रहण लागतें
- (2) रखरखाव लागतें
- (3) जीवन समाप्ति लागतें
- (4) उपरोक्त सभी

78. जब एक तैयार बाजार मौजूद होता है, तो सबसे उपर्युक्त हस्तांतरण मूल्य संभवतः होगा

- (1) बाजार मूल्य
- (2) परिवर्तनशील मूल्य
- (3) सम्पूर्ण लागत जोड़ लाभ मूल्य
- (4) आपसी समझौते से निर्धारित हस्तांतरण मूल्य

73. When actual sale price is higher or lower than the standard price, it is called ?

- (1) Sales quantity variance
- (2) Sales revenue variance
- (3) Sales price variance
- (4) Sales mix variance

74. Calculate fixed overheads cost variance :

	Standards	Actuals
Fixed Overheads	₹ 8,000	₹ 8,500
Output in units	4000	3800
(1) 900(A)	(2) 500(A)	
(3) 900(F)	(4) 500(F)	

75. Under activity based costing system, which type of costs are assigned to activities using resources drivers ?

- (1) Direct costs
- (2) Indirect costs
- (3) Total cost
- (4) None of the above

76. A transfer price is

- (1) the price to turn profit centres into investment centres.
- (2) a market based pricing to sell a product
- (3) the price charged by one segment of the company to another segment
- (4) All of the above

77. Life cycle cost of a product includes -

- (1) Pre Acquisition costs
- (2) Maintenance costs
- (3) End-of-life costs
- (4) All of the above

78. When a ready market exists, the best transfer price will probably be the

- (1) Market price
- (2) Variable price
- (3) Full cost plus profit price
- (4) Negotiated transfer price

79. EDP में वास्तविक समय सुविधा सामान्यतः न्यूनतम उपयोगी होगी, जब इसे एक फर्म के किस लेखांकन के लिए लागू किया जायेगा ?

- (1) बैंक खाता शेष
- (2) ग्राहक प्राप्त खाते
- (3) वाणिज्यिक रहतिया
- (4) संपत्ति एवं हास

80. लागत नियंत्रण और लागत में कमी के लिए कम्प्यूटर का उपयोग करने के क्या फायदे हैं ?

- (1) समय की बचत
- (2) लागत के संबंध में जानकारी का रिकॉर्ड रखना
- (3) गतिशीलता और दक्षता में वृद्धि
- (4) उपरोक्त सभी

81. उत्पादकता =

- (1) लाभ/निर्गत
- (2) लागत/निर्गत
- (3) निर्गत/निवेश
- (4) निवेश/निर्गत

82. निम्नलिखित समकों से उत्पाद X के लिए उत्पादकता की गणना कीजिये :

प्रति इकाई	
प्रमाणित समय	5 घंटा/मीटर
उत्पादन	4000 मीटर
लिया गया समय	25,000 व्यक्ति घंटा

- (1) 1.25
- (2) 0.80
- (3) 6.25
- (4) 0.88

83. निम्न में से कौन सा प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य नहीं है ?

- (1) नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास
- (2) किसी उत्पाद की प्रति इकाई लागत ज्ञात करना
- (3) सम्भावित अवसरों एवं बाधाओं की गहन जाँच
- (4) विकल्पों का विकास तथा सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन

84. प्रबंध लेखांकन एक विकसित प्रविधि है -

- (1) वित्तीय लेखांकन की
- (2) निर्णय लेखांकन की
- (3) कर लेखांकन की
- (4) लागत लेखांकन की

79. The real time feature in EDP, normally would be least useful when applied to accounting for a firm's

- (1) Bank account balances
- (2) Customer accounts receivable
- (3) Merchandise inventory
- (4) Property and depreciation

80. What are the advantages of using computers for cost control and cost reduction ?

- (1) Time saving
- (2) Keeping track of information regarding cost
- (3) Increase mobility and efficiency
- (4) All of the above

81. Productivity =

- (1) Profit/Output
- (2) Cost/Output
- (3) Output/Input
- (4) Input/Output

82. From the following data, calculate productivity for the product X :

Standard	
time per unit	5 Hrs./Metre
Production	4000 Metre
Time taken	25,000 Man Hours

- (1) 1.25
- (2) 0.80
- (3) 6.25
- (4) 0.88

83. Which of the following is not the objective of Management Accounting ?

- (1) Efforts to achieve goals of planning
- (2) Calculation of per unit cost of a product
- (3) Screening of inferred opportunities and hurdles
- (4) Development of alternative and determination of best alternative

84. Management Accounting is an extended technique -

- (1) Financial Accounting
- (2) Decision Accounting
- (3) Tax Accounting
- (4) Cost Accounting

85. चालू अनुपात होता है
 (1) त्वरित अनुपात के बराबर
 (2) निरपेक्ष त्वरित अनुपात के बराबर
 (3) तरलता अनुपात से कम
 (4) तरलता अनुपात से अधिक
86. पूँजी दंतिकरण अनुपात एवं ऋण समता अनुपात में अंतर का कारण है
 (1) अधिमान अंश पूँजी
 (2) इक्विटी अंश पूँजी
 (3) (1) और (2) दोनों
 (4) (1) और (2) में से कोई नहीं
87. A लिमिटेड का औसत स्कन्ध ₹ 50,000 तथा स्कन्ध आवर्त अनुपात 8 गुना है। वह लागत पर 25% लाभ से माल बेचता है। इसका सकल लाभ अनुपात होगा -
 (1) 25%
 (2) 16.67%
 (3) 20%
 (4) 50%
88. कोषों का प्रवाह होता है, जब
 (1) एक गैर-चालू खाते की मद एवं चालू खाते की मद के मध्य में व्यवहार होता है।
 (2) गैर-चालू सम्पत्ति एवं गैर चालू दायित्व के मध्य व्यवहार होता है।
 (3) चालू दायित्व एवं चालू सम्पत्ति के मध्य व्यवहार होता है।
 (4) उपरोक्त सभी
89. विनियोगों पर ₹ 18,000 लाभांश प्राप्त हुआ जिसमें से ₹ 2,800 अधिग्रहण से पूर्व के लाभों में से है। कोष का स्रोत है
 (1) ₹ 2,800
 (2) ₹ 18,000
 (3) ₹ 20,800
 (4) ₹ 15,200
90. निम्न में से कौन से कोषों के उपयोग हैं?
 A. अंश पूँजी में कमी
 B. स्थायी सम्पत्ति का क्रय
 C. दीर्घकालीन दायित्वों में कमी
 D. कर का भुगतान
 (1) केवल A व C
 (2) केवल A व D
 (3) A, B, C व D
 (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
85. Current Ratio is
 (1) Equals to Quick Ratio
 (2) Equals to Absolute Quick Ratio
 (3) Less than Liquidity Ratio
 (4) More than Liquidity Ratio
86. Difference in Capital Gearing Ratio and Debt Equity Ratio is due to
 (1) Preference share capital
 (2) Equity share capital
 (3) Both (1) and (2)
 (4) Neither (1) nor (2)
87. A Ltd. has an average stock is ₹ 50,000 and stock turnover ratio is 8 times. It's sales goods at a profit of 25% on cost. Its Gross Profit Ratio will be -
 (1) 25%
 (2) 16.67%
 (3) 20%
 (4) 50%
88. There is flow in funds when
 (1) there is a transaction between a non-current account item and current account item.
 (2) there is transaction between non-current asset and non-current liability.
 (3) there is a transaction between current liability and current asset.
 (4) All of the above
89. Received dividend on investment ₹ 18,000 out of which ₹ 2,800 is out of preacquisition profits. The source of fund is -
 (1) ₹ 2,800
 (2) ₹ 18,000
 (3) ₹ 20,800
 (4) ₹ 15,200
90. Which is the following are applications of fund?
 A. Decrease in share capital
 B. Purchase of fixed assets
 C. Decrease in long term liabilities
 D. Payment of Tax
 (1) A and C only
 (2) A and D only
 (3) A, B, C and D
 (4) None of the above

91. रोकड़ समतुल्यों का अर्थ है
- (1) रोकड़ शेष
 - (2) बैंक शेष
 - (3) व्यापारिक विनियोग
 - (4) अल्पकाल के लिए तरल प्रतिभूतियों में विनियोग

92. भूमि को क्रय करने के प्रतिफल में समता अंशों का निर्गमन किया, यह है -
- (1) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्यों का न तो स्रोत, न ही उपयोग है।
 - (2) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्यों का उपयोग है।
 - (3) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्यों का स्रोत है।
 - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

93. रोकड़ प्रवाह विश्लेषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ?
- (1) रोकड़ प्रवाह, रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्यों का आगम एवं निर्गम है।
 - (2) लेनदारों में कमी रोकड़ घटाता है।
 - (3) रोकड़ प्रवाह विवरण सभी व्यावसायिक संस्थाओं के लिए बनाना अनिवार्य है।
 - (4) व्यवसाय संचालन से कार्यशील पूँजी का निर्धारण आय विवरण से किया जा सकता है।

94. निम्न वित्तीय सूचनाओं को उसकी संबंधित गतिविधि से मिलान कीजिए :

- | | |
|--|--------------------------|
| A. समता अंशों का पुनः क्रय | i. कोई रोकड़ प्रवाह नहीं |
| B. दीर्घकालीन विनियोगों पर ब्याज की प्राप्ति | ii. परिचालन गतिविधि |
| C. आपूर्तिकर्ता को नकद भुगतान | iii. विनियोजन गतिविधि |
| D. बैंक में रोकड़ जमा | iv. वित्तीय गतिविधि |

- | | A | B | C | D |
|-----|-----|-----|-----|----|
| (1) | iv | iii | ii | i |
| (2) | iv | ii | iii | i |
| (3) | iii | i | ii | iv |
| (4) | i | iii | ii | iv |

91. Cash equivalents mean
- (1) Cash balance
 - (2) Bank balance
 - (3) Trade investment
 - (4) Short term investments in liquid securities

92. Issue of equity shares for consideration of purchase of land is -
- (1) neither a source nor an application of cash and cash equivalents.
 - (2) an application of cash and cash equivalents.
 - (3) a source of cash and cash equivalents.
 - (4) None of the above

93. Which of the following is statement is NOT correct regarding cash flow analysis :
- (1) Cash flows are inflow and outflows of cash and cash-equivalents
 - (2) Decrease in creditors, decreases cash.
 - (3) Cash flow statement is mandatory for all business firm.
 - (4) Working capital from business operations can be determined from income statement.

94. Match the following financial information to its related activity :

- | | |
|---|-------------------------|
| A. Buy back of equity share | i. No cash flow |
| B. Interest received on long term investments | ii. Operating activity |
| C. Cash payment to supplier | iii. Investing activity |
| D. Cash deposited into Bank | iv. Financing activity |

- | | A | B | C | D |
|-----|-----|-----|-----|----|
| (1) | iv | iii | ii | i |
| (2) | iv | ii | iii | i |
| (3) | iii | i | ii | iv |
| (4) | i | iii | ii | iv |

95. 'पूँजी संरचना' शब्द संबंधित है
- (1) चालू सम्पत्तियाँ – चालू दायित्व
 - (2) समता अंश पूँजी + आयोजन एवं संचय
 - (3) दीर्घकालीन ऋण + बाहरी लेनदार
 - (4) दीर्घकालीन ऋण + वरीयता स्टॉक एवं सामान्य समता स्टॉक
96. कम्पनी के मूल्यांकन के संबंध में पारम्परिक अवधारणा मानती है –
- (1) कि बाजार पूर्ण है।
 - (2) कि यहाँ एक अनुकूलतम पूँजी संरचना होती है।
 - (3) कि पूँजी संरचना में परिवर्तन से कुल जोखिम में परिवर्तन नहीं होता है।
 - (4) कि समग्र पूँजीकरण दर वित्तीय उत्तोलन में परिवर्तन के साथ स्थिर है।
97. पूँजी संरचना की 'Pecking order theory' आधारित है
- (1) असममित सूचनाओं पर
 - (2) सममित सूचनाओं पर
 - (3) दोनों (1) व (2)
 - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
98. एक फर्म की समता लागत में, बाजार के संबंध में एक साधारण अंश के व्यवस्थित जोखिम को कहा जाता है
- (1) अपेक्षित जोखिम
 - (2) औद्योगिक जोखिम
 - (3) बीटा जोखिम
 - (4) प्रत्याय जोखिम
99. _____ लागत की गणना करते समय निवेशकों की व्यक्तिगत कर दर को ध्यान में रखा जाता है।
- (1) समता पूँजी
 - (2) ऋण पूँजी
 - (3) अधिमान अंश पूँजी
 - (4) प्रतिधारित अर्जन
100. पूँजी लागत से आशय नहीं है
- (1) प्रबंधन द्वारा तय की गई कटौती-दर
 - (2) प्रत्याय की अधिकतम प्रत्याशित दर
 - (3) अवसर लागत
 - (4) लाभांश के लिए निवेशकों की उम्मीद

95. The term "Capital Structure" refers to –
- (1) Current Assets – Current liabilities
 - (2) Equity share capital + Reserve and Surplus
 - (3) Long term debt + Outside creditors
 - (4) Long term debt + Preferred stock and common stock equity
96. The traditional approach towards the valuation of a company assumes –
- (1) that markets are perfect.
 - (2) that there is an optimum capital structure.
 - (3) that total risk is not altered by changes in the capital structure.
 - (4) that the overall capitalization rate holds constant with changes in financial leverage.
97. The pecking order theory of capital structure is based on
- (1) Asymmetric information
 - (2) Symmetric information
 - (3) Both (1) and (2)
 - (4) None of the above
98. In a firm's cost of equity, the systematic risk of an ordinary share in relation to the market is called as
- (1) Expected risk
 - (2) Industry risk
 - (3) Beta risk
 - (4) Returning risk
99. Investor's personal tax rate is taken into consideration while computing cost of
- (1) equity capital
 - (2) debt capital
 - (3) preference share capital
 - (4) retained earning
100. Cost of capital does not mean
- (1) Cut-off rate decided by management
 - (2) maximum anticipated rate of return
 - (3) opportunity cost
 - (4) expectation of investors for dividend

101. कार्यशील पूँजी की परिपत्र प्रवाह अवधारणा आधारित है
- (1) एक फर्म के परिचालन चक्र पर
 - (2) चालू सम्पत्ति चक्र पर
 - (3) परम्परागत चक्र पर
 - (4) उत्पादन चक्र पर
102. हेजिंग या मिलान अवधारणा में, स्थायी कार्यशील पूँजी को वित्तपोषित किया जाता है
- (1) चालू दायित्वों द्वारा
 - (2) चालू सम्पत्तियों द्वारा
 - (3) दीर्घकालीन वित्त स्रोतों द्वारा
 - (4) अल्पकालीन वित्त स्रोतों द्वारा
103. बिक्री और कार्यशील पूँजी के बीच संबंध, समीकरण के रूप में दिया जायेगा :
- (1) $x = ay + b$
 - (2) $y = a + bx$
 - (3) $y = ba + x$
 - (4) $x = a + bx$
104. पूँजी बजटन निर्णयों के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है ?
- (1) NPV दीर्घकालीन विनियोग प्रस्तावों के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है।
 - (2) स्वतंत्र निवेश प्रस्ताव के मामले में, IRR और NPV विधि समान परिणाम प्रदान करती है।
 - (3) दो परस्पर अपवर्जी परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। परियोजना A का NPV, ₹ 8 लाख तथा IRR 16% तथा परियोजना B का NPV ₹ 7 लाख तथा IRR 18% है। चूँकि परियोजना B का IRR उच्चतर है, इसका चयन किया गया।
 - (4) अदायगी विधि प्रारंभिक निवेश परिव्यय को पुनर्प्राप्त करने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या निर्धारित करती है।
105. निम्न में से कौन सी विधि मुद्रा के समय मूल्य पर विचार नहीं करती है ?
- (1) लेखांकन प्रत्याय दर विधि
 - (2) लाभदायकता सूचकांक विधि
 - (3) आन्तरिक प्रत्याय दर विधि
 - (4) शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि

101. The circular flow concept of working capital is based upon
- (1) operating cycle of a firm
 - (2) current assets cycle
 - (3) traditional cycle
 - (4) production cycle
102. In Hedging or matching approach, permanent working capital is financed by
- (1) current liabilities
 - (2) current assets
 - (3) sources of long term finance
 - (4) sources of short term finance
103. The relationship between sales and working capital is given by the equation :
- (1) $x = ay + b$
 - (2) $y = a + bx$
 - (3) $y = ba + x$
 - (4) $x = a + bx$
104. Which of the following is NOT true regarding Capital Budgeting decisions ?
- (1) NPV is the best method of evaluating long term investment proposals.
 - (2) In the case of independent investment proposals, IRR and NPV method provides the same result.
 - (3) Two mutually exclusive projects have been evaluated. Project A has NPV of ₹ 8 lakh and IRR of 16%; Project B has NPV of ₹ 7 lakh and IRR of 18%. Since project B has higher IRR, it should be selected
 - (4) Payable method determines the number of years required to recover initial investment outlay.
105. Which of the following method ignores the time value of money ?
- (1) Accounting Rate of Return Method
 - (2) Profitability Index Method
 - (3) Internal Rate of Return Method
 - (4) Net Present Value Method

106. एक दृष्टिकोण, जेम्स वाल्टर द्वारा साझा किया, कि एक फर्म की लाभांश नीति अंश मूल्यांकन को प्रभावित करती है, जो निम्न में से एक पर आधारित है :

- (1) पूँजी की लागत स्थिर नहीं रहती है।
- (2) केवल प्रतिधारित अर्जन ही वित्तपोषण का स्रोत है।
- (3) प्रति अंश आय परिवर्तित होती है।
- (4) उपरोक्त सभी

107. मिलान कीजिए :

- | | |
|-------------------------|---|
| A. परम्परागत प्रतिमान | i. स्टॉक बाजार, प्रतिधारित अर्जनों की तुलना में लाभांश पर अधिक भार रखता है। |
| B. लाभांश बढ़ा प्रतिमान | ii. लाभांश अप्रासंगिकता |
| C. गॉर्डन प्रतिमान | iii. समता अंश पूँजी की लागत से लाभांश में छूट दी जाती है। |
| D. MM प्रतिमान | iv. लाभांश पूँजीकरण दृष्टिकोण |

- | | A | B | C | D |
|-----|-----|-----|----|----|
| (1) | iii | i | ii | iv |
| (2) | iv | iii | i | ii |
| (3) | i | iii | iv | ii |
| (4) | ii | iii | i | iv |

108. निम्न में से कौन सा बैलेंस स्कोर कार्ड के संबंध में सत्य नहीं है ?

- (1) मिशन और रणनीति का टॉप डाऊन प्रतिबिंब
- (2) पारंपरिक वित्तीय उपकरणों पर आधारित
- (3) बाहरी मापों को एकीकृत करता है।
- (4) कंपनी के रणनीतिक एजेंडे पर ध्यान केन्द्रित करने में मदद

109. बैलेंस स्कोर कार्ड चार परिप्रेक्ष्य से संगठनात्मक प्रदर्शन को देखता है। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है ?

- (1) सीखने एवं विकास का परिप्रेक्ष्य
- (2) ग्राहक परिप्रेक्ष्य
- (3) सामाजिक परिप्रेक्ष्य
- (4) वित्तीय परिप्रेक्ष्य

106. A view that the dividend policy of a firm has a bearing on share valuation advocated by James Walter is based on which one of the following assumption ?

- (1) Cost of capital does not remain constant.
- (2) Retained earning is only source of financing.
- (3) Earning per share fluctuates.
- (4) All of the above

107. Match the following :

- | | |
|----------------------------|--|
| A. Traditional Model | i. Stock market places more weight on dividends than on retain earning |
| B. Dividend Discount Model | ii. Dividend Irrelevance |
| C. Gordon Model | iii. Dividends are discounted by the cost of equity share capital |
| D. MM Model | iv. Dividend capitalisation approach |

- | | A | B | C | D |
|-----|-----|-----|----|----|
| (1) | iii | i | ii | iv |
| (2) | iv | iii | i | ii |
| (3) | i | iii | iv | ii |
| (4) | ii | iii | i | iv |

108. Which of the following is NOT true for the balanced scorecard ?

- (1) Top down reflection of mission and strategy
- (2) Based on traditional financial measures
- (3) Integrates external measures
- (4) Helps to focus on company's strategic agenda

109. The balance scorecard looks at organisational performance from four perspectives. Which one of the following is not included ?

- (1) The learning and growth perspective
- (2) The customer perspective
- (3) The social perspective
- (4) The financial perspective

110. निम्न में से कौन से कथन सही हैं ?

कथन-I : ROI की गणना निवेश केन्द्र की आय और निवेशित पूँजी के अनुपात के रूप में की जाती है

कथन-II : EVA पूँजी की लागत के बाद के अर्जन को मापता है।

कथन-III : MVA फर्म की दक्षता का अंशधारियों द्वारा मूल्यांकन है।

- (1) कथन I, II
- (2) कथन I, III
- (3) कथन I, II, III
- (4) कथन II, III

111. निम्न में से कौन सी जोखिम विश्लेषण की सांख्यिकीय तकनीक है/हैं ?

- (1) प्रायिकता
- (2) विचरण या प्रमाप विचलन
- (3) विचरण गुणांक
- (4) उपरोक्त सभी

112. उत्तरदायित्व लेखांकन के अनुसार, सम्पूर्ण संगठन बँटा होता है, विभिन्न –

- (1) मूल्य धाराओं में
- (2) क्रियाओं में
- (3) उत्तरदायित्व केन्द्रों में
- (4) लक्ष्य केन्द्रों में

113. परिचालन उत्तोलक का कारण है –

- (1) स्थिर परिचालन लागतें
- (2) स्थिर वित्तीय लागतें
- (3) कर योग्य आय पर उच्च कर की दर
- (4) उपरोक्त सभी

114. संयुक्त उत्तोलक बराबर है

- (1) परिचालन उत्तोलक \times वित्तीय उत्तोलक
- (2) परिचालन उत्तोलक + वित्तीय उत्तोलक
- (3) परिचालन उत्तोलक – वित्तीय उत्तोलक
- (4) परिचालन उत्तोलक \div वित्तीय उत्तोलक

110. Which of the following statements are correct ?

Statement-I : ROI is calculated as the ratio of investment centre income to invested capital.

Statement-II : EVA measures earning after the cost of capital.

Statement-III : MVA is the shareholder's appraisal of the firms efficiency.

- (1) Statement I, II
- (2) Statement I, III
- (3) Statement I, II, III
- (4) Statement II, III

111. Which of the following is/are the statistical technique for risk analysis ?

- (1) Probability
- (2) Variance or standard deviation
- (3) Coefficient of variation
- (4) All of the above

112. According to the responsibility accounting, the entire organisation is divided into various –

- (1) Value streams
- (2) Activities
- (3) Responsibility centres
- (4) Target centres

113. The reason of operating leverage is –

- (1) Fixed Operation Costs
- (2) Fixed Financial Costs
- (3) Higher rate of tax on taxable income
- (4) All of the above

114. Combined leverage is equal to

- (1) Operating Leverage \times Financing Leverage
- (2) Operating Leverage + Financing Leverage
- (3) Operating Leverage – Financing Leverage
- (4) Operating Leverage \div Financing Leverage

115. XYZ लिमिटेड की वित्तीय उत्तोलक मात्रा की गणना कीजिये :

EBIT	12,000
समता अंश पूँजी	30,000
14% पूर्वाधिकार अंश पूँजी	20,000
10% ऋणपत्र	50,000
निगम कर की दर	30%

- (1) 0.4 (2) 4
(3) 1.4 (4) 4.44

116. _____ कुल पूँजी में ऋण एवं पूर्वाधिकार अंश का अनुपात बढ़ाना शामिल करता है।

- (1) समता पर व्यापार (2) पूँजी बजटन
(3) वित्तीय निर्णय (4) वित्तीय विश्लेषण

117. निम्न में से कौन सा वित्तीय पट्टा व्यवस्था का प्रकार नहीं है ?

- (1) उत्तोलक पट्टा
(2) बिक्री एवं पुनः पट्टा
(3) अप्रत्यक्ष पट्टा
(4) क्रॉस-बॉर्डर पट्टा

118. एक विनिर्माण कम्पनी के पास अगले वर्ष के दौरान एक विशेष उत्पाद की 50,000 इकाइयों के अपेक्षित उपयोग हैं। एक आदेश को संसाधित करने की लागत ₹ 20 है तथा दो वर्ष के लिए प्रति इकाई भंडारण लागत ₹ 1 है। आर्थिक आदेश मात्रा है -

- (1) 2,000 इकाइयाँ
(2) 1,414 इकाइयाँ
(3) 141 इकाइयाँ
(4) 2,200 इकाइयाँ

119. मानव संसाधन के मूल्यांकन के दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है ?

- (1) ऐतिहासिक लागत दृष्टिकोण - मानव संसाधन के अधिग्रहण की कुल लागत पर विचार करता है।
(2) प्रतिस्थापन लागत दृष्टिकोण - फर्म के मौजूदा मानव संसाधन को बदलने की लागत पर विचार करता है।
(3) अवसर लागत दृष्टिकोण - मानव संसाधन के वैकल्पिक उपयोग के मूल्य पर विचार करता है।
(4) आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण - वर्तमान में प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित सेवाओं के भविष्य मूल्य पर विचार करता है।

115. Calculate degree of financial leverage of XYZ Ltd. -

EBIT	12,000
Equity Share Capital	30,000
14% Preference Share capital	20,000
10% Debentures	50,000
Corporate Tax Rate	30%

- (1) 0.4 (2) 4
(3) 1.4 (4) 4.44

116. _____ involves increasing the proportion of debt and preference share in total capital.

- (1) Trading on equity
(2) Capital Budgeting
(3) Financial decision
(4) Financial analysis

117. Which of the following is NOT a type of financial lease arrangement ?

- (1) Leveraged lease
(2) Sale and lease back
(3) Indirect leasing
(4) Cross-border lease

118. A manufacturing company has an expected usage of 50,000 units of certain product during the next year. The cost of processing an order is ₹ 20 and the carrying cost per unit is ₹ 1 for two years EOQ is -

- (1) 2,000 units
(2) 1,414 units
(3) 141 units
(4) 2,200 units

119. Which of the following matches is INCORRECT regarding approaches of valuation of HR ?

- (1) Historical Cost Approach - Considers total cost of acquisition of human resource
(2) Replacement Cost Approach - Considers the cost to replace a firm's existing HR
(3) Opportunity Cost Approach - Considers the value of alternative use of HR
(4) Economic Value Approach - Considers the future value of the services that expected to render in present

120. निम्नलिखित में से कौन सा मूल लेखांकन समीकरण है ?

- (1) सम्पत्तियाँ = पूँजी + दायित्व
- (2) पूँजी + दायित्व - सम्पत्तियाँ = शून्य
- (3) सम्पत्तियाँ - दायित्व - पूँजी = शून्य
- (4) उपरोक्त सभी




121. निम्न में से कौन सा स्थायी सम्पत्तियों को सर्वोत्तम परिभाषित करता है ?

- (1) यह नकद में रूपांतरण के लिए होती है ।
- (2) यह व्यवसाय के लिए खरीदी गई महँगी वस्तु है ।
- (3) यह वह वस्तु है जो जल्दी से खराब नहीं होगी ।
- (4) यह दीर्घकालीन है तथा विशेष रूप से पुनर्विक्रय के लिए नहीं खरीदी जाती है ।

122. निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेखांकन का उद्देश्य नहीं है ?

- (1) उद्यम की सम्पत्ति, दायित्व तथा पूँजी के बारे में जानकारी प्रदान करना ।
- (2) एक उद्यम के स्वामी की व्यक्तिगत संपत्ति और दायित्वों की जानकारी प्रदान करना ।
- (3) व्यवसाय के रिकार्ड्स रखना ।
- (4) एक उद्यम के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करना ।

123. आरेखीय रूप में, पुस्तपालन और लेखांकन के बीच में संबंध कैसे दिखा सकते हैं ?

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

120. Which of the following is a basic accounting equation ?

- (1) Assets = Capital + Liabilities
- (2) Capital + Liabilities - Assets = Zero
- (3) Assets - Liabilities - Capital = Zero
- (4) All of the above




121. Which of these best explains Fixed Assets ?

- (1) It is for conversion into cash.
- (2) It is an expensive item bought for the business.
- (3) It is the item which will not wear out quickly.
- (4) It is having long life and not purchased specifically for resale.

122. Which of the following statement is NOT an objective of Accounting ?

- (1) To provide information about the enterprise's assets, liabilities and capital.
- (2) To provide information on the personal assets and liabilities of the owner of an enterprise.
- (3) To maintain records of business.
- (4) To provide information on the performance of an Enterprise.

123. Diagrammatically, how can we show the relationship between Book-keeping and Accounting ?

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) None of the above

124. लेखांकन प्रक्रिया में मूल अनुक्रम को सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया जा सकता है -

- (1) व्यवहार, जर्नल प्रविष्टि, स्रोत प्रपत्र, खाता बही, तलपट
- (2) व्यवहार, स्रोत प्रपत्र, जर्नल प्रविष्टि, तलपट, खाता बही
- (3) व्यवहार, स्रोत प्रपत्र, जर्नल प्रविष्टि, खाता बही, तलपट
- (4) स्रोत प्रपत्र, जर्नल प्रविष्टि, व्यवहार, खाता बही, तलपट

125. निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ?

- (1) उपार्जित अवधारणा का तात्पर्य नकद आधार पर लेखांकन है।
- (2) पेटेंट अधिकार वास्तविक खाते की प्रकृति में है।
- (3) लेखांकन में केवल व्यापारिक लेन-देन की रिकॉर्डिंग शामिल है।
- (4) अल्पकालीन लेनदार लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता नहीं हैं।

126. सामान्यतः आय उस समय बिन्दु पर अर्जित हुई मानी जाती है जब

- (1) आदेश प्राप्त हुआ हो।
- (2) उत्पादन पूरा हुआ हो।
- (3) माल सुपुर्द कर दिया गया हो।
- (4) नकद प्राप्त हो गया हो।

127. निम्न में से कौन लेखांकन सूचनाओं का बाह्य उपयोगकर्ता नहीं है ?

- (1) प्रबंधक
- (2) लेनदार
- (3) भावी विनियोगकर्ता
- (4) शोधकर्ता

128. चालू व्यवसाय अवधारणा के अनुसार, व्यवसाय को देखा जाता है

- (1) लम्बे जीवन काल के रूप में
- (2) एक अनिश्चित जीवन काल के रूप में
- (3) औसत जीवन काल के रूप में
- (4) एक सीमित जीवन काल के रूप में

124. The basic sequence in the accounting process can be best described as -

- (1) Transaction, Journal entry, Source document, Ledger account, Trial balance
- (2) Transaction, Source document, Journal entry, Trial balance, Ledger
- (3) Transaction, Source document, Journal entry, Ledger account, Trial Balance
- (4) Source document, Journal entry, Transaction, Ledger account, Trial Balance

125. Which of following statement is TRUE ?

- (1) Accrual concept implies accounting on cash basis.
- (2) Patent Right is in the nature of Real Account.
- (3) Account involves only the recording of business transaction.
- (4) Short term creditors are not the user of Accounting information.

126. Revenue is generally recognised being earned at the point of time when -

- (1) Order is received.
- (2) Production is completed.
- (3) Goods are delivered.
- (4) Cash is received.

127. Which of the following is NOT an external user of accounting information ?

- (1) Manager
- (2) Creditor
- (3) Potential Investor
- (4) Researcher

128. According to going concern concept, business is viewed as having

- (1) Long life
- (2) An indefinite life
- (3) Average life
- (4) A limited life

129. किस अवधारणा के अनुसार, व्यापार से शुद्ध आय का निर्धारण करने में, उस अवधि के आय पर लागू होने वाली सभी लागतों को उस आय के विरुद्ध चार्ज किया जाना चाहिए ?

- (1) मिलान अवधारणा
- (2) लागत अवधारणा
- (3) मुद्रा मापन अवधारणा
- (4) द्विपक्षीय अवधारणा

130. निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है/हैं ?

- A. वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी को जोड़ना - पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धान्त
- B. रहतिये का मूल्यांकन लागत अथवा शुद्ध वसूली मूल्य में से कम हो, पर करना - रूढ़िवादिता सिद्धान्त
- C. संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन करना - महत्ता सिद्धान्त
- D. वर्ष दर वर्ष किसी सम्पत्ति के मूल्य हास हेतु WDV विधि का अनुगमन करना - संगतता सिद्धान्त

- (1) केवल A, B
- (2) केवल C
- (3) केवल C, D
- (4) केवल B

131. Indian AS-2 के अनुसार, निम्न में से किस रहतिये मद का मूल्यांकन नहीं किया जाता ?

- (1) निर्मित रहतिया मदें
- (2) जैविक रहतिया मदें
- (3) खुदरा रहतिया मदें
- (4) औद्योगिक रहतिया मदें

132. Indian AS-10 वर्णन करता है -

- (1) रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ
- (2) स्थायी सम्पत्तियों के लिए लेखा
- (3) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण
- (4) सम्बद्ध पक्ष प्रकटीकरण

133. IFRS-10 के अनुसार, समेकन का आधार है -

- (1) नियामक आवश्यकताएँ
- (2) कर्मचारियों की संख्या
- (3) निवेशकर्ता की अंश पूँजी का आकार
- (4) नियंत्रण

129. According to which concept, in determining the net income from business, all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue ?

- (1) Matching concept
- (2) Cost concept
- (3) Money measurement concept
- (4) Dual aspect concept

130. Which of the following combination is/are NOT correct ?

- A. Appending notes to the financial statements - Full disclosure principle
- B. Valuation of stock at lower of cost or net realisable value - Conservatism principle
- C. Making provision for doubtful debts - Materiality principle
- D. Following of WDV method for depreciating a particular asset year after year - Consistency principle

- (1) Only A, B
- (2) Only C
- (3) Only C, D
- (4) Only B

131. Under Indian AS-2, which of the following inventory items are not valued ?

- (1) Manufactured inventory items
- (2) Biological inventory items
- (3) Retail inventory items
- (4) Industrial inventory items

132. Indian AS-10 represents -

- (1) Events after the Reporting Period
- (2) Accounting for Fixed Assets
- (3) Property, Plant and Equipment
- (4) Related Party Disclosures

133. According to IFRS-10, the basis for consolidation is -

- (1) Regulatory requirements
- (2) Number of employees
- (3) Size of share capital of the investee
- (4) Control

134. IFRS-13 परिभाषित करता है

- (1) समेकित वित्तीय विवरण
- (2) उचित मूल्य माप
- (3) परिचालन खंड
- (4) वित्तीय प्रपत्र

135. खाता बही पुस्तक है

- (1) प्रारंभिक प्रविष्टि की
- (2) द्वितीयक प्रविष्टि की
- (3) सभी नकद व्यवहारों की
- (4) सभी गैर-नकद व्यवहारों की

136. एक मशीन के क्रय करने पर मशीन को स्थापित करने के लिए श्रमिक को मजदूरी के रूप में ₹ 500 का भुगतान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सही है ?

- (1) मजदूरी खाता डेबिट होगा।
- (2) स्थापना शुल्क खाता डेबिट होगा।
- (3) मशीन खाता डेबिट होगा।
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

137. 'Mr. A से माल हेतु आदेश प्राप्त हुआ।' जर्नल प्रविष्टि दीजिए।

- (1) Purchase a/c Dr.
To Cash a/c
- (2) Mr. A's a/c Dr.
To Cash a/c
- (3) Purchase a/c Dr.
To Mr. A's a/c
- (4) कोई प्रविष्टि नहीं की जायेगी।

138. कथन-1 : यदि व्यवसाय का कोई दायित्व है तो स्वामी की पूंजी कुल संपत्ति से अधिक होनी चाहिए।

कथन-2 : श्री X से नकद में क्रय किया गया, इसे श्री X के खाते में क्रेडिट किया जाएगा।

- (1) दोनों कथन सही हैं।
- (2) दोनों कथन असत्य हैं।
- (3) केवल कथन 1 सही है।
- (4) केवल कथन 2 सही है।

139. अंतिम प्रविष्टियों को रिकॉर्ड किया जाता है

- (1) मुख्य जर्नल
- (2) खाताबही में
- (3) रोकड़ पुस्तक में
- (4) तुलन पत्र में

140. निर्गमित किया गया क्रेडिट नोट का उपयोग _____

- तैयार करने में किया जाता है।
- (1) विक्रय पुस्तक
 - (2) क्रय पुस्तक
 - (3) विक्रय वापसी पुस्तक
 - (4) क्रय वापसी पुस्तक

134. IFRS-13 defines

- (1) Consolidated financial statements
- (2) Fair value measurement
- (3) Operating segments
- (4) Financial instruments

135. Ledger is a book of

- (1) Original entry
- (2) Secondary entry
- (3) All cash transactions
- (4) All non-cash transactions

136. On purchase of a machine ₹ 500 is paid to worker as wage for installing the machine. Which of the action is correct ?

- (1) Wages a/c be debited.
- (2) Installation charges a/c be debited.
- (3) Machinery a/c debited.
- (4) None of the above

137. 'Received an order for goods from Mr. A.' Give Journal entry.

- (1) Purchase a/c Dr.
To Cash a/c
- (2) Mr. A's a/c Dr.
To Cash a/c
- (3) Purchase a/c Dr.
To Mr. A's a/c
- (4) No entry will be passed.

138. Statement-1 : If the business has any liability the proprietor's capital must be more than the total assets.

Statement-2 : Purchase made from Mr. X for cash should be credited to Mr. X.

- (1) Both statements are correct.
- (2) Both statements are false.
- (3) Only statement 1 is correct.
- (4) Only statement 2 is correct.

139. Closing entries are recorded in –

- (1) Journal proper
- (2) Ledger
- (3) Cash Book
- (4) Balance Sheet

140. The credit note issued is used to prepare –

- (1) Sale book
- (2) Purchase book
- (3) Sale return book
- (4) Purchase return book

141. निम्न में से कौन सा तलपट के संबंध में सत्य नहीं है ?

- (1) तलपट एक विवरण है, खाता नहीं।
- (2) खाताबही के खातों के अंतिम शेष तलपट में दिखाये जाते हैं।
- (3) व्यवसाय के अंतिम खाते तलपट की सहायता से तैयार किये जाते हैं।
- (4) यह तुलनपत्र में की गई प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जाँच की एक पद्धति है।

142. तलपट के दोनों पक्षों का योग नहीं मिलना यह बताता है कि

- (1) एक लेनदेन पूरी तरह से प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना छूट गया।
- (2) यहाँ एक क्षतिपूर्क अशुद्धि है।
- (3) एक लेनदेन सही पक्ष पर परन्तु गलत खाते में लिखा गया।
- (4) एक लेनदेन सहायक बहियों से गलत खतौनी किया गया।

143. निम्न में से कौन से व्यवहार का परिणाम सम्पत्ति में वृद्धि तथा दायित्व में वृद्धि होगा ?

- (1) मशीन का उधार क्रय
- (2) बोनस अंश का निर्गमन
- (3) लेनदारों को भुगतान
- (4) ख्याति का अपलेखन

144. अदत्त वेतन के लिए समायोजित प्रविष्टि होगी -

- (1) Salary a/c Dr.
To Cash a/c
- (2) Salary a/c Dr.
To Salary Outstanding a/c
- (3) Salary Outstanding a/c Dr.
To Cash a/c
- (4) Salary outstanding a/c Dr.
To Salary a/c

145. रोकड़ पुस्तक में, बैंक शुल्क के ₹ 125 को दर्ज नहीं किया गया। सही रोकड़ पुस्तक समायोजन है -

- (1) इसे रोकड़ पुस्तक में क्रेडिट किया जाएगा।
- (2) इसे रोकड़ पुस्तक में डेबिट किया जाएगा।
- (3) रोकड़ पुस्तक में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
- (4) शुल्क रोकड़ पुस्तक शेष में जोड़ा जाएगा।

141. Which of the following is NOT true regarding Trial Balance ?

- (1) It is a statement, not an account.
- (2) Closing balances of Ledger are shown in Trial Balance.
- (3) Final accounts of business are prepared with the help of Trial Balance.
- (4) It is a system adopted to judge the mathematical accuracy of Balance Sheet.

142. If total of both sides of trial balance is not matched, it shows

- (1) A transaction is entirely omitted from record in the original books.
- (2) There is a compensating error.
- (3) A transaction is posted on the correct side but in the wrong account.
- (4) A transaction is wrong posted in ledger from subsidiary books.

143. Which of the following transaction results increase in asset as well as increase in liability ?

- (1) Credit purchase of machinery
- (2) Issue of bonus share
- (3) Payment to creditors
- (4) Written off goodwill

144. Adjustment entry for salary outstanding is -

- (1) Salary a/c Dr.
To Cash a/c
- (2) Salary a/c Dr.
To Salary Outstanding a/c
- (3) Salary Outstanding a/c Dr.
To Cash a/c
- (4) Salary outstanding a/c Dr.
To Salary a/c

145. In cash book, bank charges of ₹ 125 was not recorded. The correct cash book adjustment is -

- (1) It will be credited in cash book.
- (2) It will be debited in cash book.
- (3) No adjustment needed in the cash book.
- (4) Charges will be added to the cash book balance.

146. विनिमय बिलों की विशेषता नहीं है
- (1) यह लिखित में होना चाहिए।
 - (2) इस पर दिनांक होनी चाहिए।
 - (3) यह एक भुगतान का आदेश है।
 - (4) यह एक भुगतान का वचन है।
147. P तथा Q एक फर्म में साझेदार हैं। बताइये कौन सा दावा वैध है/हैं, यदि निम्न मामलों में साझेदारी समझौता मौन है :
- A. P एक सक्रिय साझेदार है। वह प्रति माह ₹ 10,000 वेतन चाहता है।
 - B. Q ने फर्म को ऋण दिया था। वह 10% प्रति वर्ष ब्याज का दावा करता है।
 - C. पूँजी के रूप में P ने ₹ 20,000 तथा Q ने ₹ 50,000 का योगदान दिया। P लाभों में बराबर अंश चाहता है।
- (1) केवल A
 - (2) केवल B
 - (3) केवल C
 - (4) A, B व C सभी
148. अ तथा ब की एक फर्म में ख्याति का मूल्यांकन ₹ 12,000 आंका गया। यह पुस्तकों में ₹ 7,500 पर विद्यमान है। स को 1/6 भाग के लिए प्रवेश दिया गया। ख्याति के रूप में उसके द्वारा लाई जाने वाली राशि होगी -
- (1) ₹ 12,000
 - (2) ₹ 7,500
 - (3) ₹ 2,000
 - (4) ₹ 4,500
149. एक साझेदार के सेवानिवृत्ति पर संचित लाभों के संबंध में क्या व्यवहार किया जाएगा ?
- (1) सभी साझेदारों के पूँजी खाते को पुराने अनुपात में क्रेडिट किया जाएगा।
 - (2) सभी साझेदारों के पूँजी खाते को पुराने अनुपात में डेबिट किया जाएगा।
 - (3) शेष साझेदारों के पूँजी खाते को नये अनुपात में क्रेडिट किया जाएगा।
 - (4) शेष साझेदारों के पूँजी खाते को ग्रहण अनुपात में क्रेडिट किया जाएगा।
150. साझेदारी फर्म के विघटन पर, साझेदारों के पूँजी खाते बंद किए जाएँगे -
- (1) वसूली खाते से
 - (2) बैंक खाते से
 - (3) आहरण खाते से
 - (4) ऋण खाते से
146. This is NOT the characteristic of Bills of Exchange
- (1) It must be in writing.
 - (2) It must be dated.
 - (3) It is an order to pay.
 - (4) It is a promise to pay.
147. P and Q are partners in a firm. State which claim is/are valid if the partnership agreement is silent in the following matters :
- A. P is an active partner. He wants a salary of ₹ 10,000 per month.
 - B. Q had advanced a loan to the firm. He claims interest @ 10% p.a.
 - C. P has contributed ₹ 20,000 and Q ₹ 50,000 as capital. P wants equal share in profits.
- (1) Only A
 - (2) Only B
 - (3) Only C
 - (4) All A, B and C
148. Goodwill of a firm of A and B is valued at ₹ 12,000. It is appearing in the books at ₹ 7,500. C is admitted for 1/6 share. What amount he is supposed to bring for goodwill ?
- (1) ₹ 12,000
 - (2) ₹ 7,500
 - (3) ₹ 2,000
 - (4) ₹ 4,500
149. What treatment is made of accumulated profits on the retirement of a partner ?
- (1) Credited to all partner's capital accounts in old ratio.
 - (2) Debited to all partner's capital accounts in old ratio.
 - (3) Credited to remaining partner's capital accounts in new ratio.
 - (4) Credited to remaining partner's capital accounts in gaining ratio.
150. On dissolution of the partnership firm, partner's capital accounts are closed through
- (1) Realisation Account
 - (2) Bank Account
 - (3) Drawing Account
 - (4) Loan Account

रफ कार्य के लिए स्थान / SPACE FOR ROUGH WORK

181. The area of a square is 144 sq. cm. Find the length of its side.

182. A rectangular field is 100 m long and 50 m wide. Find its area.

183. A square has a side of 12 cm. Find its area.

184. A rectangular field is 150 m long and 80 m wide. Find its area.

185. A square has a side of 15 cm. Find its area.

186. A rectangular field is 200 m long and 100 m wide. Find its area.

187. A square has a side of 20 cm. Find its area.

188. A rectangular field is 250 m long and 120 m wide. Find its area.

189. A square has a side of 25 cm. Find its area.

190. A rectangular field is 300 m long and 150 m wide. Find its area.

181. एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें।

182. एक आयताकार क्षेत्र 100 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई का है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें।

183. एक वर्ग का भुजा 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें।

184. एक आयताकार क्षेत्र 150 मीटर लंबाई और 80 मीटर चौड़ाई का है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें।

185. एक वर्ग का भुजा 15 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें।

186. एक आयताकार क्षेत्र 200 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई का है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें।

187. एक वर्ग का भुजा 20 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें।

188. एक आयताकार क्षेत्र 250 मीटर लंबाई और 120 मीटर चौड़ाई का है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें।

189. एक वर्ग का भुजा 25 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें।

190. एक आयताकार क्षेत्र 300 मीटर लंबाई और 150 मीटर चौड़ाई का है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें।

